

# प्रेस विज्ञप्ति

थाना बिहारीगढ़, सहारनपुर पुलिस एवं पी0आर0वी0 1002 द्वारा ग्रामीणों की मदद से कुड़ीखेड़ा गांव के पास शाकुंभरी रोड पर पानी के तेज बहाव में फंसे 05 व्यक्तियों को रेस्क्यू कर सकुशल निकाला बाहर, पुलिस द्वारा की गई तत्काल सहायता के लिए सभी ने पुलिस का किया धन्यवाद:-

आज दिनांक 18-07-2021 को सुबह 06:00 बजे डायल 112 के माध्यम से थाना बिहारीगढ़ पर सूचना मिली कि कुड़ीखेड़ा गांव के पास शाकुंभरी रोड पर नदी में पांच स्कॉर्पियो सवार पानी के तेज बहाव में फंसे हैं। इस पर थाना बिहारीगढ़ पुलिस एवं पी0आर0वी0 1002 द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर स्थानीय ग्रामीणों की मदद से रेस्क्यू तथा बचाव कार्य शुरू किया गया। काफी मशक्कत के बाद पांचो व्यक्तियों को नदी से बाहर निकाला गया तथा पूछने उन्होंने अपने नाम 1-दीपक पुत्र शुभम 2-सचिन अग्रवाल पुत्र नरेश अग्रवाल 3-रोहित अग्रवाल पुत्र रमेश अग्रवाल 4-पारस शर्मा 5-अश्विनी अग्रवाल निवासीगण पटेल नगर जनपद गाजियाबाद बताते हुये बताया गया कि हम लोग अपनी स्कॉर्पियो गाड़ी नं0 यूपी 14 बीयू-6900 से माता शाकुंभरी देवी के दर्शन करने के लिए जा रहे थे, कि जब हम इस नदी के पास पहुंचे तो उस समय पानी बहुत कम था। नदी पार करने के प्रयास में हमारी स्कॉर्पियो गाड़ी गड्ढे में गिर गई उसे निकालने के प्रयास करने के दौरान ही अचानक नदी का जलस्तर बढ़ गया और हमारी गाड़ी भी नदी के तेज बहाव में बह गई। पुलिस द्वारा की गई तत्काल सहायता के लिये सभी के द्वारा पुलिस की भूरी-भूरी प्रशंसा की गई।



## प्रेस नोट दिनांक 18-07-2021

थाना देवबन्द पुलिस द्वारा सटटे की खाईबाडी करते समय 02 अभियुक्त गिरफ्तार :-  
दिनांक 17-07-2021 को थाना देवबन्द पुलिस द्वारा रेलवे स्टेशन देवबन्द से अभि0 1-फूल मियां पुत्र मोहम्मद मंजूर निवासी मौ0 छीमपीवाडा कस्बा व थाना देवबन्द, सहारनपुर व 2-इमरान पुत्र अब्दुल कलाम निवासी मौ0 फौलादपुरा कस्बा व थाना देवबन्द, सहारनपुर को पर्चा सटटा मय 1050/रूपये सहित गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना देवबन्द पर मु0अ0सं0 446/21 धारा 13 जी एक्ट पंजीकृत किया गया।

थाना बडगांव पुलिस द्वारा अवैध शराब सहित 01 अभियुक्त गिरफ्तार :-

दिनांक 17-07-2021 को थाना बडगांव पुलिस द्वारा ग्राम भगवानपुर से अभि0 तेल्लू उर्फ तेजपाल पुत्र फुल्लू निवासी ग्राम अम्बेहटा चांद थाना बडगांव, सहारनपुर को 40 लीटर शराब खाम मय शराब बनाने के उपकरणय व 70 लीटर लहन सहित गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना बडगांव पर मु0अ0सं0 122/21 धारा 60(2) आबकारी अधि0 पंजीकृत किया गया।

थाना मिर्जापुर पुलिस द्वारा नाजायज स्मैक सहित 01 अभियुक्त गिरफ्तार :-

दिनांक 17-07-2021 को थाना मिर्जापुर पुलिस द्वारा शेरपुर पेलो पुलिया थाना मिर्जापुर से अभि0 इस्तखार पुत्र कय्यूम निवासी मौ0 गुर्जरी वाला मिर्जापुर पोल थाना मिर्जापुर, सहारनपुर को 11 ग्राम स्मैक व 01 इलैक्ट्रिक कांटा सहित गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना मिर्जापुर पर मु0अ0सं0 168/21 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया।

थाना बेहट पुलिस द्वारा नाजायज स्मैक सहित 01 अभियुक्त गिरफ्तार :-

दिनांक 17-07-2021 को थाना बेहट पुलिस द्वारा बेलका पावर हाअस बेहट से अभि0 शौकीन पुत्र इसाक निवासी मदनपुरा थाना बिहारीगढ, सहारनपुर को 10 ग्राम स्मैक सहित गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना बेहट पर मु0अ0सं0 352/21 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया।

थाना को0देहात पुलिस द्वारा नाजायज चाकू सहित 01 अभियुक्त गिरफ्तार :-

दिनांक 17-07-2021 को थाना को0देहात पुलिस द्वारा साईं धाम बेहट रोड से अभि0 दिलशाद पुत्र इस्लाम निवासी मौ0 हाकमशाह हबीबगढ थाना कु0शेर, सहारनपुर को 01 नाजायज चाकू सहित गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना को0देहात पर मु0अ0सं0 328/21 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।

थाना को0देहात पुलिस द्वारा नाजायज चाकू व नशीली गोलियों सहित 01 अभियुक्त गिरफ्तार :-

दिनांक 17-07-2021 को थाना को0देहात पुलिस द्वारा ज्ञानागढ रोड से अभि0 राशिद पुत्र यासीन निवासी मौ0 खालसा कस्बा व थाना बेहट, सहारनपुर को 01 नाजायज चाकू व 105 नशीली गोली एल्प्राजोलाम सहित गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना को0देहात पर मु0अ0सं0 330/21 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट व मु0अ0सं0 331/21 धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया।

मीडिया/सोशल मीडिया सेल  
जनपद सहारनपुर।